

BFL ASSET FINVEST LIMITED

(Formerly known as BFL Developers Limited)

Regd. Office: 1, Taranagar, Ajmer Road, Jaipur - 302 006, Ph.: 9214018877

CIN: L45201RJ1995PLC010646, Website: www.bflfin.com, E-mail: bfldevelopers@gmail.com

Date: February 13, 2020

**To,
BSE Ltd.,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001**

Sub.: Newspaper Advertisement – Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref: Scrip Code: 539662

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the financials published in newspapers Nafa Nukshan and Financial Express on February 13, 2020. The same has been made available on the Company website www.bflfin.com.

**Thanking you,
Yours Sincerely,**

**For BFL Asset Finvest Limited
(Formerly Known as BFL Developers Ltd.)**

Surbhi Rawat
**CS Surbhi Rawat
Company Secretary &
Compliance Officer
M. No. :- A49694**



Enc:-A/a

AXIS BANK Axis Bank Limited, Axis House, Tower-2, 2nd Floor, 1-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens, Wazirpur, Noida (U.P.)-201301, Agri Business center at - Axis Bank Ltd., SCF 94, Sector 6, Kamal 132001. Controlling office: Axis House, Bombay Dyeing Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY
Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(5) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis on 18-03-2020 on 12 Noon at Axis House, Tower-2, 2nd Floor, 1-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wazirpur, Noida (U.P.)-201301 for recovery of Rs. 1,84,33,000/- pending till 10/02/2020 along with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred up to the date of actual payment and/or realization due to the secured creditor from Mrs. Raj Bela w/o Sh. Prem Chand. The reserve price will be Rs. 1,78,50,000/- and the earnest money deposit will be Rs. 17,85,000/- Last Date, Time And Venue For Submission Of Bids With Sealed Offer Tender With EMP on 17-03-2020 at the above mentioned address.

Account Number	Location / Details of the Immovable Property/Secured Assets possessed and put for sale	Encumbrances, if any known to the Bank.
OD - Facility (916030063398451, 916030012620804 & 916030012520178)	All Piece & Parcel of Freehold commercial shop bearing no. 2036, measuring 158 Sq Yards out of total 318 Sq. yards situated at Village Nandla, Delhi 110040 owned by Mrs. Raj Bela w/o Sh. Prem Chand.	NO

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. <https://www.axisbank.com/auction-notices/>
Date: 13-February-2020, Self-Authorized Officer, Axis Bank Ltd.
Place: Noida, UP

ALLAHABAD BANK Zonal Office, Meerut 55, The Mall, Meerut Cantt

NOTICE UNDER 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002, READ WITH RULES 3 OF SECURITY INTEREST ENFORCEMENT RULES 2002

I being an Authorised Officer of the Secured Creditor Bank has a reason to believe that all of you the under mentioned notice can not be served ordinarily as attempted earlier except this substituted service. As such, all of you the under mentioned notices are hereby informed and called upon through this public DEMAND NOTICE under section 13(2) of the SARFAESI Act with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 make payment of the amount due against each of you, as mentioned below, within 60 days. Thereafter the bank will proceed U/s 13 (4) of the said Act for taking possession of the secured property/ies/ Assets mentioned against account and thereafter to sell the same to realize its dues with further interest @ realization along with costs as contemplated under the said Act. **Needless to mention here that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to bank for recovery of its dues, against you.**

Name of the Borrower/ Guarantor and Address	Details of Security / Property	Date of Demand Notice 22.01.2020
BRANCH: RITHANI, MEERUT 1. Shri. Akhilesh Kumar S/o Shri. Hukam Singh (Borrower) R/o K-2/2109 Shastri Nagar, Meerut Dist. Meerut. 2. Shri. Raj Kumar Singh (Guarantor) R/o K-2109, Shastri Nagar, Meerut Dist. Meerut. 3. Shri. Rajendra Kumar (Guarantor) R/o 405/6, Jagriti Vihar, Meerut Dist. Meerut.	Residential House bearing House No. L-763, & L-764, measuring East side 10 meter, West side 10 meter, North side 9.70 meter & South side 9.70 meter, total measuring area 97.37 M ² , Situated at Ram Manohar Lohia Nagar, Meerut, Dist. Meerut, Bounded :- East: Plot No L-767, West: Road 6 meter wide, North: Plot No. L-762, South: Plot No. L-765 Owner/ Title holder Shri Akhilesh Kumar S/o Shri Hukam Singh R/o K-2/2109, Shastri Nagar, Meerut, Dist. Meerut	Date of NPA: 30.08.2018 Date of Sending Demand Notice by Regd. Post: 22.01.2020 Date of Return of Demand Notice (Registered): 07.02.2020 Amount due as per Demand Notice 8,28,504.00 + future Interest and Costs etc as on 22.01.2020

Dated: 12.02.2020 Place: Meerut Authorised Officer

punjab national bank CLPC: Green Park, 10, Akash Deep Building, Gahmohar Enclave, Yusuf Sarai, New Delhi -110016

RULE 8 (1) POSSESSION NOTICE (For immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 04.12.2019 calling upon the Borrower Smt. Ruma Dutta Proprietor of M/s. Dev Blenders, Resident of House No. 67, Khasra No. 358, Pustha Road, Village Ali, Sarita Vihar, New Delhi - 110076 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 96,95,049.27 (Rupees Ninety Six Lakhs Ninety Five Thousand Forty Nine and Paise Twenty Seven Only) as on 30.11.2019 and also liable to pay future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, cost, charges, etc., within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) read with rule 8 & 9 of the said Rules on this 10th day of February 2020.

The Borrower & Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank, Branch Office - Kotla Mubarak Pur, New Delhi for an amount of Rs. 96,95,049.27 (Rupees Ninety Six Lac Ninety Five Thousand Forty Nine and Paise Twenty Seven Only) as on 30.11.2019 and also liable to pay future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, cost, charges, etc.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
"ENTIRE PROPERTY BEARING MUNICIPAL NO. 67, KHASRA NO. 358, MEASURING 140 SQ. YARD SITUATED WITHIN LAL DORA ABADI (1908-1909) IN THE REVENUE STATE OF VILLAGE AALI, TEHSIL HAUZ KHAS, NEW DELHI - 110076".
Date: 10/02/2020, Place: New Delhi
Authorised Officer, Punjab National Bank

BFL ASSET FINVEST LIMITED
(Formerly known as BFL Developers Limited)
Regd. Office : 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur - 302006, Ph.: 9214018877
CIN: L45201RJ1995PLC010646, Website-www.bffin.com, E-mail: bfldevelopers@gmail.com

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter/Nine Months Ended December 31, 2019 (Rs. in Lacs, except per share data)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2019	Nine Months Ended 31.12.2019	Quarter Ended 31.12.2018
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
Total Income from operations (net)	160.23	44.54	418.42
Net profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	158.20	(160.47)	20.79
Net profit/(Loss) for the period after tax (after tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	154.45	(164.23)	20.69
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	182.29	(274.39)	20.69
Equity Share Capital	1020.35	1020.35	1020.35
Reserves (Excluding Revaluation reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	1.51	(1.61)	0.20
1. Basic:			
2. Diluted:			

Note: (1) The Audit Committee has reviewed the above results and the Board of Directors has approved the above results at their respective meetings held on February 12, 2020. (2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months ended Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/ Nine Months ended Unaudited financial results are available on the website of the stock exchange www.bseindia.com and on the website of the company www.bffin.com.

For BFL Asset Finvest Limited (Formerly known as BFL Developers Ltd.)
Sd/-
Mahendra Kumar Baid (Managing Director)
DIN:- 00009826

Date: February 12, 2020
Place: Jaipur

TINNA TRADE LIMITED
Registered Office : No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030
Website: www.tinnatrade.in, E-mail: investor.ttl@tinnatrade.in, Telephone No.: 011-49518530 Fax no.: 011-26804883
CIN: L51100DL2009PLC186397

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019
(Rs. in lakhs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
		31-Dec-19	31-Dec-18	31-Dec-19	31-Dec-18	31-Mar-19	31-Dec-19	31-Dec-18	31-Dec-19	31-Dec-18	31-Mar-19
1	Total Income from Operations	7105.82	9482.56	24,745.30	37,017.66	47,789.53	7,296.22	9,783.54	25,643.87	37,835.65	48,758.36
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.57	82.44	(204.15)	274.68	205.98	7.89	107.88	(135.43)	303.31	225.49
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.57	82.44	(204.15)	274.68	205.98	7.89	107.88	(135.43)	303.31	225.49
4	Net profit/(loss) for the period after Tax/After Exceptional and/or Extraordinary items)	50.70	59.69	(175.10)	205.55	183.93	45.03	84.93	(106.38)	234.18	183.42
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	41.84	84.50	(180.02)	209.55	171.98	36.30	89.91	(110.77)	238.71	192.18
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	858.48	858.48	858.48	858.48	858.48	858.48	858.48	858.48	858.48	858.48
7	Other Equity	-	-	-	-	2,480.15	-	-	-	-	2,288.68
8	Earning Per Share (face value of Rs 10/- each share) (for continuing and discontinued operation)										
	(a) Basic	0.59	0.70	(2.04)	2.40	1.91	0.56	0.85	(1.83)	2.57	2.03
	(b) Diluted	0.59	0.70	(2.04)	2.40	1.91	0.56	0.85	(1.83)	2.57	2.03

Note:-
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and on the company's website www.tinnatrade.in
2 The above results have been reviewed by the Audit Committee on 11th February, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12th February, 2020.

Place: New Delhi
Date: 12-02-2020

FOR TINNA TRADE LIMITED
Sd/-
Gaurav Sekhri
Chairman & Managing Director

बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड

(पूर्व में बीएफएल डबलपर्स के रूप में जानते थे)

पंजीकृत कार्यालय : 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006, फोन : 9214018877

E : bfldevelopers@gmail.com, W : www.bflfin.com, C IN: L45201RJ1995PLC010646

31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही/ नौमाही के लिए गैर अंकेषित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019	समाप्त नौमाही 31.12.2019	समाप्त तिमाही 31.12.2018
गैर अंकेषित	गैर अंकेषित	गैर अंकेषित	गैर अंकेषित
सिंचावनों से कुल आय (शुद्ध)	160.23	44.54	418.42
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से पहले)	158.20	(160.47)	20.79
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से बाद)	154.45	(164.23)	20.69
अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	182.29	(274.39)	20.69
के लिए लाभ/हानि	1020.35	1020.35	1020.35
इसका अंश पूंजी			
रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पर के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)			
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)			
(संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए)			
1. मुल	1.51	(1.61)	0.20
2. तरल			

विवरण: (1) 12 फरवरी, 2020 को आयोजित संबंधित मीटिंग में अंकेषण हर्षित ने उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की है एवं निदेशक मण्डल ने उपरोक्त परिणामों को मंजूरी दी है। (2) उपरोक्त विवरण सेबी (पूरीतन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही/नौमाही के गैर अंकेषित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही/नौमाही के गैर अंकेषित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.bflfin.com पर उपलब्ध है।

दिनांक : 12 फरवरी 2020
स्थान : जयपुर

वास्तव- बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड
(पूर्व में बीएफएल डबलपर्स के रूप में जानते थे)
ड. महेंद्र कुमार बैद, (प्रबन्ध निदेशक)
DIN:- 00009828

इससे पिछले साल इसी महीने में यह 12,365.89 करोड़ रुपये रहा था। चालू वित्त वर्ष के पहले दस माह में तराई और पालिश हीरो का निर्यात 16.04 प्रतिशत घटकर 1,14,982.97 करोड़ रुपये रहा जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 1,36,941.69 करोड़ रुपये पर रहा था। वहीं जनवरी में सोने के आभूषणों का निर्यात 2.21 प्रतिशत घटकर 6,337.12 करोड़ रुपये रह गया जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने में 6,480.26 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के पहले दस माह में सोने के आभूषणों का निर्यात 5.33 प्रतिशत बढ़कर 71,981.43 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 68,340.74 करोड़ रुपये रहा था।

कार्यान्वयन के भी नुकसान के हैं। इसके लिए प्रावधान है। के राजस्व में वृद्धि के आधार जुलाई, 2017

कार्यालय नगर

क्रमांक / भूखण्ड द्वितीय / 2019-20/1615

एतद द्वारा श्री जहाँगीर पुत्र श्री मोहनसंख्या 9-जे-41 साईज 30 x 45 द्वारा/आवंटन लॉटर द्वारा / आवास भूखण्ड का आवंटन प्रक्रिया शुरू किया गया है।

आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 187.50 वर्गज श्रीमती मोविन फा विक्रय किया गया, इनके द्वारा श्री इमर पंजीकृत विक्रय किया गया। श्री इमर उक्त भूखण्ड को अपने नाम नामांतरण किया गया है। अतः उक्त कार्यवाही से अपनी उजरदारी मय सबूत / दस्तावेज आगामी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक / भूखण्ड प्रथम / 2019/11490 दिनांक 12-02-2020

सांख्यिक सूचना-

एतद द्वारा श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामलाल पारीक को न्यास की योजना आजादनगर में भूखण्ड संख्या एच-61 साईज 25 x 49 = 136.11 वर्गज दिनांक 25.10.1989 को आवंटन आवासीय/ निवासी द्वारा विक्रय किया गया है।

इस कार्यालय को प्रस्तुत विक्रय चैनल अनुसार श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामलाल पारीक इनके द्वारा नियुक्त उक्त भूखण्ड के जरिये मु.आम श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री हरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा मु.आम उप पंजीकृत कार्यालय में दिनांक 26.12.2007 को रजिस्टर्ड है, इनके द्वारा श्रीमती ललिता पाण्डिया पत्नी श्री सुनिल कुमार पाण्डिया को विक्रय कर दिया गया एवं इनके द्वारा उक्त भूखण्ड के नामांतरण/पंजीयन बाबत आवेदन पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अपनी उजरदारी मय सबूत दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने आगामी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

श्रीमती ललिता पाण्डिया पत्नी श्री सुनिल कुमार पाण्डिया

एच-45 आजादनगर भीलवाड़ा

प्रभारी अधिकारी - नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



राजस्थान आवासन मण्डल

(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)

क्रमांक आवासीय/भील/2019-20/1621

दिनांक 12-02-2020

जाहिर आम सूचना-

आवास संख्या 2-ए-22 शास्त्री नगर विस्तार योजना शहर भीलवाड़ा जो मूल आवंटी श्री अनिल कुमार भटनागर पुत्र श्री दयानन्द खरूप भटनागर को पालित योजना-1988 के अन्तर्गत आवंटित किया गया। आवास का आवंटन प्रक्रिया 371 दिनांक 30.04.1993 द्वारा जारी कर आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 28.05.1993 को सुपुर्द किया गया तथा आवास पेट समस्त बकाया राशि जमा होने के पश्चात पत्र क्रमांक 2425 दिनांक 16.12.1997 के द्वारा अद्वैत प्रमाण पत्र जारी किया गया। श्री डॉ. अनिल कुमार भटनागर पुत्र श्री दयानन्द खरूप भटनागर के पक्ष में कार्यालय पत्र क्रमांक 2442 दिनांक 13.01.1998 के माध्यम से आवास के पंजीयन हेतु पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये जिसे दिनांक 14.01.1998 को उप पंजीकृत कार्यालय भीलवाड़ा में पंजीयन कराया गये थे। इस प्रकार हाल रिपोर्ट उक्त आवास श्री अनिल कुमार भटनागर पुत्र श्री दयानन्द खरूप भटनागर के नाम है।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.04.2019 की श्री अनिल कुमार भटनागर पुत्र श्री दयानन्द खरूप भटनागर द्वारा श्रीमती मंजू रावती पत्नी श्री शैलेंद्र सिंह चौहान को विक्रय किया गया।

अब अंतिम क्रेता श्रीमती मंजू रावती पत्नी श्री शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा आवक नामांतरण हेतु शुल्क राशि रु. 17700/- दिनांक 03-02-2020 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरान्त नाम हस्तांतरण/ नामांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी मंडल रिपोर्ट में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचारार्थ है।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञापित के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता- राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा



राजस्थान आवासन मण्डल

(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)

क्रमांक आवासीय/भील/2019-20/1620

दिनांक 12-02-2020

जाहिर आम सूचना-

आवास संख्या 1-सी-8 चंद्रशेखर आजाद नगर योजना शहर भीलवाड़ा जो मूल आवंटी श्री प्रवीण कुमार सिंह पुत्र श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह को खुली बिक्री योजना- 1998 के अन्तर्गत आवंटित किया गया। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 7274 दिनांक 28.02.1995 के द्वारा जारी कर आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 15.07.1995 को सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात आवास के मूल आवंटी श्री प्रवीण कुमार सिंह पुत्र श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह द्वारा श्री विपिन सिंह एवं सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह को मुकदमा नामांतरण आवास के आधार पर श्रीमती उप आवासन अधिकार वृत्त जयपुर, से सम्बन्धित विक्रय प्रारंभ हो जाने के पश्चात कार्यालय अद्वैत क्रमांक 2525 दिनांक 31.12.2005 के द्वारा श्री विपिन सिंह एवं श्रीमती सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह के नाम से नामांतरण अद्वैत जारी किया गया। एवं श्री विपिन सिंह एवं श्रीमती सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह के द्वारा आवेदन करने तथा आवास पेट समस्त बकाया राशि जमा करवाने जाने के पश्चात पत्र क्रमांक 2697 दिनांक 07.01.2006 के द्वारा अद्वैत प्रमाण पत्र जारी किया गया। श्री विपिन सिंह एवं श्रीमती सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह के पक्ष में कार्यालय पत्र क्रमांक 2819 दिनांक 01.02.2006 के माध्यम से आवास के पंजीयन हेतु पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये। जिससे दिनांक 02.02.2006 को उप पंजीकृत कार्यालय भीलवाड़ा में पंजीयन कराया गये थे। इस प्रकार हाल रिपोर्ट उक्त आवास श्री विपिन सिंह एवं श्रीमती सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह के नाम है।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2006 को श्री विपिन सिंह एवं श्रीमती सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह द्वारा श्री सुरेंद्र कुमार चौराहिया पुत्र श्री नक्षत्रम चौराहिया को बेचान किया गया।

अब अंतिम क्रेता श्री सुरेंद्र कुमार चौराहिया पुत्र श्री नक्षत्रम चौराहिया द्वारा आवास नामांतरण हेतु शुल्क राशि रु. 17700/- दिनांक 07.02.2020 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरान्त नाम हस्तांतरण/ नामांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी मंडल रिपोर्ट में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचारार्थ है।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञापित के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता- राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा



राजस्थान आवासन मण्डल

(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)

क्रमांक आवासीय/भील/2019-20/1615

जाहिर आम सूचना-

आवास संख्या 4-ए-26 शास्त्री नगर विस्तार योजना शहर भीलवाड़ा जो मूल आवंटी श्री जगदीश मोची को विशिष्ट पंजीकृत आवंटन प्रक्रिया 2523 दिनांक 28.02.1990 को सुपुर्द किया गया तथा आवंटन पत्र क्रमांक 24.03.1990 को सुपुर्द किया गया तथा आवंटन पत्र क्रमांक 1229 दिनांक 20.07.2016 के द्वारा अद्वैत प्रमाण पत्र जारी किया गया। श्री जगदीश मोची के पक्ष में कार्यालय पत्र क्रमांक 1400 पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये जिसे दिनांक 14.08.2016 को पंजीयन प्रपत्र जारी किया गया।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2006 को श्री विपिन सिंह एवं श्रीमती सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह के द्वारा आवेदन करने तथा आवास पेट समस्त बकाया राशि जमा करवाने जाने के पश्चात पत्र क्रमांक 2697 दिनांक 07.01.2006 के द्वारा अद्वैत प्रमाण पत्र जारी किया गया। श्री विपिन सिंह एवं श्रीमती सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह के पक्ष में कार्यालय पत्र क्रमांक 2819 दिनांक 01.02.2006 के माध्यम से आवास के पंजीयन हेतु पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये। जिससे दिनांक 02.02.2006 को उप पंजीकृत कार्यालय भीलवाड़ा में पंजीयन कराया गये थे। इस प्रकार हाल रिपोर्ट उक्त आवास श्री विपिन सिंह एवं श्रीमती सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह के नाम है।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2006 को श्री विपिन सिंह एवं श्रीमती सुनिता सिंह पुत्र श्री एन. के. पी. सिंह द्वारा श्री सुरेंद्र कुमार चौराहिया पुत्र श्री नक्षत्रम चौराहिया को बेचान किया गया।

अब अंतिम क्रेता श्री सुरेंद्र कुमार चौराहिया पुत्र श्री नक्षत्रम चौराहिया द्वारा आवास नामांतरण हेतु शुल्क राशि रु. 17700/- दिनांक 07.02.2020 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरान्त नाम हस्तांतरण/ नामांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी मंडल रिपोर्ट में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचारार्थ है।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञापित के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता- राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा